



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 138 | नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 4, 1977/श्रावण 13, 1899

No. 138 | NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 1977/SRAVANA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 4th August 1977

No. DRAWBACK/PN-34/77.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F No 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time —

For sub-serial No 2623 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

Sub- Sl No.	Description of goods	Rate of drawback
(1)	(2)	(4)
2623.	Cotton Handloom fabrics namely the following —	
	(i) Real Madras handkerchief with art silk embellishment	Rs 1.40 (Rupee one and paise forty only) per kg.
	(ii) Handloom lungies including handloom lungies containing Radiant yarn	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value

(1)	(2)	(3)
(iii)	All other handloom fabrics which are either piece dyed and/or made from coloured yarns and/or printed (but excluding such fabrics which contain coloured yarns only in border and not in the body of the fabrics and/or which are only printed in borders and not in the body of the fabrics)	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg Per kg.
2 For sub-serial No. 2703 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —		
2703.	Made up articles of cotton handloom fabrics falling under sub-serial No. 2623 (ii) and 2623 (iii)	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

विश्व मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1977

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू०-34 77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथामंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है —

1. उपक्रम सं० 2623 और तन्मम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	वस्तुओं का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
(1)	(2)	(3)
2623.	हाथकरघे के सूती वस्त्र, अर्थात् :—	
(i)	असली मद्रासी बमाल जिम पर तकली रेशम का अलकरण हो।	1.40 रु० (केवल एक रुपया चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
(ii)	हाथकरघे की लुगिया जिनमें चमकीले धागे वाली हाथकरघा लुंगी भी शामिल है।	पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 2% (केवल दो प्रतिशत)

(1)	(2)	(3)
(iii) हथकरके के अन्य सभी वस्त्र जो या तो तैयार करके रंगे गये हो तथा अथवा रंगीन धागे से निर्मित हो तथा अथवा छपे हो (परन्तु इनमें ऐसे वस्त्र शामिल नहीं हैं जिनमें रंगीन धागे केवल बार्डर में हो तथा सारे वस्त्र में नहीं हों तथा अथवा जिनमें केवल किनारे ही छपे हो तथा शेष सारा भाग छपा नहीं हो।	0 80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।	
2 उपक्रम सं० 2703 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —		
2703 हथकरके के सूती वस्त्रों से तैयार वस्तुएँ जो उप-क्रम सं० 2623 (ii) तथा 2623 (iii) के अन्तर्गत आती हैं।	रु० 0 80 (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।	

सी० डी० रगाचारी, उप-सचिव।

